



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1614]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 8, 2017/ज्येष्ठ 18, 1939

No. 1614]

NEW DELHI, THURSDAY JUNE 8, 2017/JYAISTHA 18, 1939

I Md ifjogu vkj jktekxleaky;

vf/kl puk

नई दिल्ली, 8 जून, 2017

dk-vk- 1821½—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (अब नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65) के 249.000 कि.मी. से 269.800 कि.मी. तक के भू-खण्ड (महाराष्ट्र सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप जिला अधिकारी, भूमि अर्जन संख्या 7 (मोहोल), सोलापूर, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात्, तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

## वृद्धि

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं 9 (अब नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 65) के 249.000 कि.मी. से 269.800 कि.मी. तक (महाराष्ट्र सेक्शन) के लिए अर्जन की जानेवाली सरचना सहित अथवा रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

द्वारा लगाया ; क	फायदा लगाया	रकबा लगाया	खसम लगाया	लगाया लगाया	लगाया लगाया	लगाया लगाया	{k=Oy %oxl ehVj½
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लगाया	नफा लगाया	खसम	22	निजी	कृषि	1000
				; kx			1000
			कृषि	762	निजी	कृषि	2500
				; kx			2500
			रकबा	63	निजी	कृषि	1900
				; kx			1900
			फायदा	49	निजी	कृषि	2900
				; kx			2900
			यक	19	निजी	कृषि	700
				; kx			700
		मरज लगाया	नफा	31/4	निजी	कृषि	900
				; kx			900
				द्वारा ; kx			9900

[फा. सं. एनएचआई/एलए/11013/एमएच/सोलापुर/2016]

राजेश गुप्ता, उप-सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2017

**S.O. 1821(E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening /four-laning etc) maintenance, management and operation of National Highway No 9 (now new NH No. 65) on the stretch of land from Km 249.000 to Km. 269.800 for (Maharashtra Section) in District Solapur in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Deputy Collector, Land Acquisition No. 7 (Mohol) Solapur in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within stretch of land from Km 249/000 to Km 269/800 (Maharashtra Section) of the National Highway No. 9 (Now New National Highway No. 65) in the State of Maharashtra

Sr. No.	Name of District	Name of Taluka	Name of Village	Survey/Gat No.	Type of Land	Nature of Land	Area in (Sqm)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Solapur	South Solapur	Mulegaon	22	Private	Agriculture	1000
				Total			1000
			Boramani	762	Private	Agriculture	2500
				Total			2500
			Tandulwadi	63	Private	Agriculture	1900
				Total			1900
			Pinjarwadi	49	Private	Agriculture	2900
				Total			2900
			Lamantanda	19	Private	Agriculture	700
				Total			700
		North Solapur	Dahitane	31/4	Private	Agriculture	900
				Total			900
Grand Total				9900			

[F. No. NHAI/LA/11013/MAH/Solapur/2016]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.